

दिनांक 01.09.2014 से 31.08.2015 की अवधि में कर्तव्यपथ पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों की शौर्य गाथा से सम्बन्धित प्रमुख घटनायें

1. स्व0 डा0 हरेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गौतमबुद्धनगर
2. स्व0 श्री मोहन कुमार, आरक्षी 189 स0पु0, जनपद गौतमबुद्धनगर
3. स्व0 श्री बलराज सिंह, आरक्षी 166 ना0पु0 जनपद गौतमबुद्धनगर



स्व0 डा0 हरेन्द्र सिंह,  
पुलिस उपाधीक्षक,



स्व0 श्री मोहन कुमार,



स्व0 श्री बलराज सिंह

दिनांक: 22.04.2015 को थाना सूरजपुर क्षेत्र के सेक्टर-144 के सामने स्थित एक्सप्रेस-वे पर यातायात बाधित होने की सूचना पर श्री बलराज सिंह आरक्षी 166 ना0पु0, श्री संजय शर्मा आरक्षी 181 टीपी, श्री पवन कुमार आरक्षी चालक तत्काल मौके पर पहुँचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करने लगे। इस सूचना पर डा0 हरेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी ग्रेटर नोएडा-प्रथम मय हमराह आरक्षी 148 ना0पु0 रोमित कुमार, आरक्षी 189 स0पु0 मोहन कुमार व चालक संजय कुमार के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप संचालित कराने में लग गये, उसी समय एक स्विफ्ट वीडिआई कार का चालक ग्रेटर नोएडा की तरफ से बहुत तेजी से नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुये आया और डा0 हरेन्द्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक, श्री बलराज सिंह आरक्षी 166 ना0पु0 व श्री मोहन कुमार आरक्षी 189 स0पु0 को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इनको गम्भीर चोटें आयी। इन्हें तत्काल गम्भीर अवस्था में जे0पी0 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सा के दौरान श्री बलराज सिंह आरक्षी 166 ना0पु0 व श्री मोहन कुमार आरक्षी 189 स0पु0 की दिनांक: 22.04.2015 को तथा डा0 हरेन्द्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक की दिनांक: 25.04.2015 को मृत्यु हो गयी।

इस प्रकार डा0 हरेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, श्री बलराज सिंह आरक्षी 166 ना0पु0 व श्री मोहन कुमार आरक्षी 189 स0पु0 अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए।

4. स्व0 श्री राजकुमार सिंह, निरीक्षक ना0पु0 जनपद फतेहगढ़ ।



दिनांक 29.11.2014 को श्री राजकुमार सिंह निरीक्षक ना0पु0 मय हमराह के थाना कोतवाली फरूखाबाद से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त पप्पू उर्फ चन्द्र कुमार कोरी पुत्र ठकुरी प्रसाद कोरी के घर पर होने की जानकारी होने पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान पुलिस को देखकर अभियुक्त घर से बाहर निकलकर भागने लगा। निरीक्षक श्री राजकुमार व हमराह पुलिस बल अभियुक्त को पकड़ने के लिये आगे बढ़े तभी पप्पू उर्फ चन्द्र कुमार कोरी ने तमंचा निकालकर इनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। फायर के दौरान गोली श्री राजकुमार सिंह के सीने में लगी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गयी ।

इस प्रकार श्री राजकुमार सिंह निरीक्षक ना0पु0 द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहूति दी गयी ।

5. स्व0 श्री विजय प्रताप मिश्र, आरक्षी 48 ना0पु0, जनपद अमेठी।



दिनांक 14.09.2014 को श्री विजय प्रताप मिश्र आरक्षी 48 ना0पु0 की भूपति भवन रामनगर, थाना अमेठी, जनपद अमेठी में शान्ति व्यवस्था हेतु ड्यूटी लगाई गयी थी। इस ड्यूटी के दौरान उपद्रवियों द्वारा इन्हें गोली मार दी गयी। गोली लगने से आरक्षी विजय प्रताप मिश्र गम्भीर रूप से घायल हो गये। गोली लगने के कारण इनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी ।

इस प्रकार श्री विजय प्रताप मिश्र आरक्षी 48 ना0पु0 द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहूति दी गयी ।

6. स्व0 श्री प्रेम सिंह, आरक्षी 89 ना0पु0 जनपद बुलन्दशहर।



दिनांक 05.08.2015 को नगर नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली की अज्ञात बदमाश हरियाणा नम्बर की गाड़ी से भाग रहे हैं। इस सूचना पर चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर लगे श्री प्रेम सिंह आरक्षी 89 ना0पु0 द्वारा बदमाशों को रूकने के लिये कहा गया। बदमाशों द्वारा अपनी गाड़ी जान से मारने की नीयत से इनके ऊपर चढ़ा दी, जिससे श्री प्रेम सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गये। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया ।

इस प्रकार श्री प्रेम सिंह आरक्षी 89 ना0पु0 द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहूति दी गयी ।